

एलीमेंट्री स्क्रिप्ट:

यह स्कूल मैसेंजर एलिमेंटरी स्कूल टेलीफोन रजिस्ट्रेशन कॉल का हिंदी अनुवाद है जो आपको अंग्रेजी में प्राप्त होगी:

इस सितंबर में आपके ग्रेड x में जाने वाले बच्चे के लिए टोरोंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। (आपको अपने प्रत्येक बच्चे के लिए एक फोन कॉल आएगा। कॉलों की पहचान उनकी ग्रेड से की जाएगी।)

शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि एलीमेंट्री स्कूल पूरे दिन के लिए एक गुट (cohort) और स्थापित किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा के बढ़े हुए उपायों के साथ प्रति सप्ताह पांच दिन के लिए स्कूल लौटेंगे।

शारीरिक दूरी रखने के बारे में टोरोंटो पब्लिक हेल्थ की सिफारिशों के आधार पर, टीडीएसबी ने ऐसे समुदायों, जहां पब्लिक हेल्थ डेटा कोविड-19 का शिकार होने का अधिक जोखिम दिखाता है, उनमें संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति विकसित की है कि पूरे सिस्टम में क्लासों के साइज़ को यथासंभव कम किया जाए। कर्मचारी टोरोंटो पब्लिक हेल्थ के साथ ऐसे स्कूल निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।

यदि आप सितंबर में अपने बच्चे को इन-पर्सन लर्निंग के लिए स्कूल नहीं भेजने का विकल्प चुनते हैं, तो आपके बच्चे के लिए टीडीएसबी के वर्चुअल स्कूल फॉर रिमोट लर्निंग (Virtual School for Remote Learning) के माध्यम से घर पर पूरी तरह से रिमोट लर्निंग मॉडल उपलब्ध होगा। रिमोट लर्निंग एक केंद्रीय वर्चुअल स्कूल मॉडल के माध्यम से डिलिवर किया जाएगा क्योंकि स्कूल में आधारित व्यक्तिगत मॉडल प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

आपके स्कूल को सितंबर के लिए कक्षा सूचियाँ बनाने की आवश्यकता है, इसलिए हम आपको इस समय अपने बच्चे को इन-पर्सन (इसका मतलब है स्कूल में) या रिमोट लर्निंग (इसका मतलब वर्चुअल स्कूल है) के लिए रजिस्टर करने के लिए कह रहे हैं।

1) सितंबर में आपका बच्चा स्कूल कैसे लौटेगा:

"मेरा बच्चा इन-पर्सन हाज़िर होगा" के लिए 1 दबाएँ

"मेरा बच्चा रिमोट लर्निंग के लिए वर्चुअल स्कूल में हाज़िर होगा" के लिए 2 दबाएं

आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आपका धन्यवाद। अगले चरणों के अपडेटों और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.tdsb.on.ca पर जाएँ।